

प्यारी माँ के नाम इस्लामी सन्देश

नसीम ग़ाज़ी

मर्कज़ी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स
नई दिल्ली-११००२५

જ્ઞાનઅઠખ ચારાંછ બાએ ડાયાચ ખડકઅચખ ડાયજાલ્ક (કલપવલ)

ઇસ્લામી સાહિત્ય દ્વસ્ત પ્રકાશન ન.- ૮૭

‘સર્વાધિકાર સુરક્ષિત

પ્રકાશક : મર્ક્ઝી મકતબા ઇસ્લામી પબ્લિશર્સ

ઊ ૩૦૭, અબુલ ફજ્લ ઇન્કલેવ,

જામિયા નગર, નई દિલ્લી-૧૧૦૦૨૫

દૂરભાષ: ૨૬૯૧૧૬૫૨, ૨૬૩૧૭૮૫૮

નવીન સંસ્કરણ : ૨૦૦૪ ઈ.

મૂલ્ય : ૮.૦૦

મુદ્રક : દાવત આફ્સેટ, દિલ્લી-૬

बिसमिल्लाहिरर्खमानिरहीम
‘कृपाशील, दयावान ईश्वर के नाम से’

दो शब्द

यह पुस्तिका वास्तव में एक खत है जो अपनी प्यारी माँ के नाम १९६८ई. में लिखा गया था। उस समय मैं एक शैक्षणिक संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। मेरे पिता जी का पहले ही देहावसान हो चुका था, जबकि मेरी उम्र नौ साल की थी। मेरे सरपरस्त मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब थे और इस्लाम के सम्बन्ध में उनके और मेरे विचार एक ही थे। इसलिए इस्लामी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद उनकी ओर से मेरा विरोध तो क्या होता, बल्कि उनका सदैव सहयोग और संरक्षण ही मुझे मिलता रहा। किन्तु माता जी का मामला इससे बिल्कुल ही भिन्न था। उन्हें मेरा इस्लाम ग्रहण करना असत्य था और यह बात भी उनके लिए असहनीय थी कि मैं उनसे बिछड़कर बहुत दूर चला गया था, हालांकि प्रायः मैं घर आया करता था। स्वाभाविक बात है कि मेरी मनोकामना यही थी कि मेरी प्यारी माँ भी इस नेपत से मालामाल हों और वे इसके लिए विकल थीं कि मैं कितनी जल्द इस्लाम को त्याग दूँ। सच तो यह है कि वे मुझसे अति स्नेह रखने के कारण मेरे इस कार्य से परेशान थीं और एक मानसिक कशमकश में पड़ गई थीं। स्वभावतः ऐसा होना ही चाहिए था। चूँकि इस्लाम की सही शिक्षाएँ उनके सामने न थीं और आम तौर पर मुसलमान जो नमूना अपने आचरण से पेश कर रहे थे, वह भी इस्लाम के अत्यन्त विरुद्ध और भ्रमजनक था तथा इस्लाम के बारे में फैलाई गई तरह-तरह की गलतफहमियों से भी वे प्रभावित थीं, इसलिए उनके मन में इस्लाम के प्रति कोई नर्म गोशा न था। मेरे बारे में उनके दिल में तरह-तरह के विचार आते और कभी दूसरों के द्वारा पैदा किए जाते थे, जैसा कि प्रस्तुत खत से विदित है। मैं यथासम्भव उनके विचारों और उनकी आशंकाओं को दूर करने और उनके सामने इस्लाम की वास्तविक शिक्षाओं को पेश करने की कोशिश करता था। यह कोशिश कभी बातचीत के द्वारा और कभी खत के माध्यम से होती।

मेरे जन्म के बाद हमारे खानदानी पंडित जी ने मेरे भविष्य के बारे में अन्य बहुत-सी बातों के साथ मेरी माता जी को यह भी बताया था कि तुम्हारा यह बेटा बड़ा होकर तुम्हारा न

रह सकेगा । अतः मेरे सत्य-ग्रहण कर लेने के बाद मेरी माता जी को पंडित जी की यह भविष्यवाणी पूरी होती प्रतीत हुई और उन्होंने कई बार मुझे उसकी याद दिलाकर समझाने की कोशिश की ।

मेरी माता जी समझती थीं कि इस्लाम में तो कोई खूबी है नहीं, बल्कि मेरा बेटा दिल्लीवाले मौलाना के बहकाने में आ गया है। इस खत में मैंने उनके इस ध्रम और ग़लतफ़हमी को दूर करना चाहा था और साथ ही इस्लाम की ओर उन्हें भी आमंत्रित किया था । क्योंकि मेरी तो मनोकामना और कोशिश ही यह थी कि वे इस्लाम की नेमत से वंचित न रह जाएँ ।

इस खत को पढ़ने के बाद उनके विरोध में कुछ कमी तो अवश्य आई, किन्तु वे सत्य ग्रहण करने के लिए तैयार न थीं । मैं बराबर उन्हें समझाने की कोशिश में लगा रहा और साथ ही उनके लिए ईश्वर से दुआएँ भी करता रहा । लगभग तीन साल के बाद ईश्वर की कृपा से उन्होंने सत्य को सच्चे दिल से ग्रहण कर लिया । परमेश्वर का लाख-लाख शुक्र है कि मेरी परम आदरणीय माँ जीवन की अन्तिम साँस तक सत्य-धर्म पर क्रायम, उससे सन्तुष्ट और खुश रहीं । यह इस्लाम से उनका हार्दिक लगाव ही था कि पवित्र कुरआन जैसे बृहद ग्रन्थ के सम्पूर्ण हिन्दी अनुवाद का कई बार अध्ययन कर चुकी थीं । वे नातेदारों और मिलनेवालों को सत्य-धर्म और कुरआन की बातें बतातीं, इस्लाम की खूबियाँ उनके सामने रखतीं । उनको यह तड़प थी कि काश लोग इस्लाम को समझने की कोशिश करते तथा इस्लाम के सिलसिले में जो ग़लतफ़हमियां फैली हुई हैं, उन्हें दूर करने और इस्लाम की प्यारी और मनमोहक बातों को आम लोगों तक पहुँचाने की भरपूर जिद्दोजुहद करते! उन्हें इसकी भी बड़ी चिंता थी कि काश इस्लाम के माननेवाले ये मुसलमान अपने चरित्र व आचरण में, मामलात और रहन-सहन में इस्लाम का चलता-फिरता नमूना बन जाते और इस तरह न केवल वे खुद सफलता प्राप्त करते, बल्कि ईश्वर के आम बन्दों के लिए भी संमार्ग की ओर आने का माध्यम और प्रेरणा-स्रोत बनते!

आह! मेरी प्यारी माँ १९९६ ई. में परलोक सिधार गई ।

“बेशक हम ईश्वर ही के हैं और बेशक हमें उसी की ओर पलटना है।”

पालनहार प्रभु उनको मोक्ष प्रदान करे, उनपर दया करे, स्वर्ग में उन्हें दाखिल करे और परलोक में अर्थात् मौत के बाद आनेवाली ज़िन्दगी में हमें उनसे अच्छी दशा में मिलाएं!

इस सुखद घटना से दूसरे को भी फ़ायदा हो, इस उद्देश्य से इस निजी ख़त को प्रकाशित किया जा रहा है। ईश्वर की कृपा से इस पुस्तिका के हिन्दी और उर्दू में बहुत से एडीशन छप चुके हैं और यह भारत की अनेक भाषाओं के अलावा विदेशों में भी विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि वह अपने सच्चे धर्म पर हमारे क़दमों को जमाए रखे और जब हमें मौत दे तो इस हालत में कि हम उसके प्रति आस्थावान और उसे समर्पित हों।

– नसीम ग़ाज़ी

‘कृपाशील, दयावान ईश्वर के नाम से’

प्यारी अम्मी, सप्रेम आदाब!

ईश्वर करे आप सकुशल हों। काफ़ी दिन हुए आपका प्यार भरा पत्र मिला था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण समय पर जवाब न दे सका, इसकी माफ़ी चाहता हूँ।

मेरी प्यारी माँ! जिस तरह आपका दिल मेरी याद में तड़पता है, उसी तरह मेरा दिल भी आपकी ममता और स्नेह को याद करता है और अब मैं अपने आपको उसी प्रकार महसूस करता हूँ जैसे जलते तवे पर कोई दाना! दिल चाहता है उड़कर आपके पास पहुँच जाऊँ, लेकिन शिक्षा की व्यस्तता रोकती है। अगर मुझे दीन की शिक्षा प्राप्त करनी न होती तो आपसे कभी जुदा न होता। दीनी शिक्षा प्राप्त करनी इतनी ज़रूरी और महत्वपूर्ण है कि इसके लिए मैंने आपसे जुदाई गवारा कर ली, परन्तु आपकी याद बराबर आती है और सदैव आपके बारे में सोचा करता हूँ, और सोचूँ भी क्यों नहीं जबकि आपके मुझपर इतने उपकार हैं, जिनको न तो ज़बान से अदा किया जा सकता है और न उनका बदला चुकाया जा सकता है।

मेरी प्यारी अम्माँ! आपकी वे बारें जो समय-समय पर आपके मुँह से निकलती थीं – “मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया”, “मौलाना ने मेरे लाडले को बहका दिया”, “पंडित जी ने ठीक ही कहा था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं होगा, बल्कि किसी और का हो जाएगा” – मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं और इसकी बड़ी चिन्ता रहती है कि आपको मेरे बारे में ये आशंकाएँ क्यों पैदा हो गई हैं। आपने मेरा कौन-सा अशोभनीय कार्य देखा है जिसके कारण मेरे बारे में इतनी चिन्तित हो गई हैं।

मेरी प्रिय माँ! आपको ये आशंकाएँ केवल इसलिए हुई हैं कि मैंने उस कृपाशील, दयावान ईश्वर को अपना स्वामी और पालनकर्ता बनाया है जिसने मुझे, आपको और सारे संसार को पैदा किया है। जिसने हमें अपना अपार अनुग्रह प्रदान किया। ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए हर प्रकार की सामग्री जुटाई। ज़रूरत का हर सामान दिया। और मैं उसके सन्देशों पर भी ईमान लाया हूँ जिसको उसने अपना मार्ग बताने के लिए नियुक्त किया। मैंने यह फैसला किया है कि मैं अपने पूरे जीवन में ईश्वर के आदेशों के अनुसार कार्य करूँगा और ईश्वर के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं करूँगा। मैं ईश्वर को अपना पूज्य, उपास्य, शासक, पालनहार समझता हूँ और इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि जब उसने पैदा किया है और

जीवन व्यतीत करने का सारा सामान दिया है, अन्न, जल और वस्त्र आदि चीजों का प्रबन्ध किया है, तो मरने के बाद एक ऐसा दिन लाएगा जिस दिन संसार में हमने जो कुछ कर्म किए हैं उनका हिसाब लेगा, उन लोगों को जो दुनिया में उसके नियमों पर चले होंगे, स्वर्ग में स्थान देगा और जिन लोगों ने नियमों की अवहेलना की होगी उन्हें नरक में फेंकेगा। बस मेरी प्यारी माँ मेरा यही दोष है कि मैंने फैसला किया है कि मैं नरक की आग से बचने के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहूँगा और ईश्वरीय नियमों का पालन करूँगा, उन नियमों का जिनको उसने अपने सन्देशवाहकों द्वारा समय-समय पर समस्त दुनिया में भेजा और आखिर में उन्हीं नियमों को पैग़ाम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के माध्यम से भेजा है। मैं वे तमाम कार्य करूँगा जिनके करने का उसने आदेश दिया है और उन कार्यों से रुक जाऊँगा जिनसे रुकने की उसने ताकीद की है, अर्थात् मैं मुसलमान बनकर जीवन व्यतीत करूँगा। इसलिए कि मुसलमान कहते ही उसे हैं जो ईश्वर के आदेशों का पालन करे, और इसी कारण मैंने वे तमाम बुराइयाँ छोड़ दी हैं जिनसे ईश्वर ने रोका है। आप जानती हैं कि मुसलमान होने से पहले मेरे अन्दर जितनी ख़राबियाँ थीं जिन्हें देखकर आप खुद भी दुखी रहती थीं, मुसलमान होने के बाद ईश्वर की कृपा से सब छूट गई, और ये इसलिए छूटी हैं कि जब ईश्वर ने इनसे रोका है तो मैं इन्हें करने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ।

मेरी प्यारी अम्माँ! मैंने जिस धर्म (इस्लाम) को अपनाया है उसे ईश्वर ने तमाम मनुष्यों के लिए भेजा है और इसमें पूरे जीवन के लिए आदेश दिए गए हैं। इसी लिए उसने बता दिया है कि हम कैसे उपासना करें, आपस के मामलों के क्या ढंग होने चाहिएँ, राजनीति में भाग कैसे लें, राज्य कैसे करें, आपस में मेल-मिलाप कैसे रखें, किस शिष्टता और अखलाक के साथ लोगों से मिलें, खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, सोने-जागने, चलने-फिरने, खामोश रहने और बोलने, शादी-विवाह, आपसी सम्बन्ध अर्थात् हर बात के बारे में स्पष्ट कर दिया है कि कैसे क्या किया जाए। ईश्वर ने साफ़-साफ़ बता दिया है कि हम अपने माँ-बाप, भाई-बहन, पति-पत्नी, पड़ोसी, दोस्त, दुश्मन, अपने और पराए के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। अब जबकि मैंने यह फैसला कर लिया है कि ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलूँगा और ठीक उस प्रकार जीवन व्यतीत करूँगा जैसे वह चाहता है तो स्पष्ट है कि माँ-बाप के सम्बन्ध में भी उसी से रहनुमाई हासिल करूँगा और उनके साथ मेरा व्यवहार उसी प्रकार का होगा जिसकी शिक्षा ईश्वर और उसके पैग़ाम्बर ने दी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सामने स्पष्ट कर दूँ कि ईश्वर और उसके पैग़ाम्बर ने माँ-बाप के साथ किस तरह के व्यवहार का

आदेश दिया है। यह बात भी बतानी ज़रूरी है कि माँ-बाप के साथ सद्व्यवहार करने के बारे में जो निर्देश इस्लाम ने दिए हैं उसमें मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों प्रकार के माँ-बाप शामिल हैं, इस्लाम ने धर्म के आधार पर उनमें फ़र्क नहीं किया है।

ईश्वर ने अपनी पवित्र किताब कुरआन में अनेक बार इस बात का आदेश दिया है कि माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। अर्थात् उनसे अच्छे से अच्छे ढंग से पेशा आओ। उन्हें परेशान न करो, बल्कि उनका कहना मानो, उनको धन्यवाद दो और इसी बात का आदेश मुसलमानों को ईश्वर के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने भी दिया है। एक अवसर पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) से किसी आदमी ने पूछा, “ईश्वर को कौन-सा काम सबसे अधिक प्रिय है?” हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने उत्तर दिया, “वह नमाज़ जो नियत समय पर पढ़ी जाए।” उसने पूछा, “इसके बाद कौन-सा कार्य ईश्वर को सबसे ज्यादा पसन्द है?” फ़रमाया “माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना।” इसी प्रकार एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के पास एक आदमी आया और कहा कि “मैं हिजरत (ईश्वर के लिए घर-बार छोड़ने) और जिहाद (ईश्वर की राह में प्राण निछावर करने) के लिए आपके हाथ पर बैअत करता हूँ (वचन देता हूँ) और यह केवल पुण्य (सवाब) समझकर कर रहा हूँ।” तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने उस व्यक्ति से पूछा कि “क्या तुम्हारे माँ-बाप में से कोई ज़िन्दा है?” उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, “हाँ! ईश्वर की कृपा है कि दोनों ज़िन्दा हैं।” हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने उस आदमी को जिहाद और हिजरत करने के बजाय माँ-बाप की सेवा और अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया और बताया कि तुम्हारा जिहाद और हिजरत यही है। इसी प्रकार एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा कि “माँ-बाप ही तुम्हारा स्वर्ग हैं और वे ही तुम्हारा नरक।” यानी अगर तुम अपने माँ-बाप का कहना मानोगे, उनकी सेवा करोगे, उनके साथ भलाई और नर्मी से पेशा आओगे, उनके कृतज्ञ और आभारी होगे तो स्वर्ग में प्रवेश करोगे। और अगर ऐसा नहीं किया, बल्कि उनकी अवज्ञा की, उन्हें सताया और बुरा-भला कहा तो नरक की भड़कती हुई आग में जाओगे। इस तरह आप (सल्ल.) ने विभिन्न अवसरों पर माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने पर लोगों को उभारा है।

ईश्वर ने एक जगह पवित्र कुरआन में कहा है, “अपने माँ-बाप के साथ अच्छे से अच्छा सुलूक करो। अगर माँ-बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उन्हें कोई अप्रिय बात न कहो और न उन्हें झ़िड़को।” अर्थात् उन्हें मारना-पीटना,

बुरा- भला कहना, तकलीफ़ देना तो दूर की बात है, उन्हें कोई ऐसी बात भी नहीं कही जा सकती जिसे वे बुरा समझें। अगर वे ऐसी बातें करें जो तुम्हें पसन्द न हों तो उन्हें बरदाशत और गवारा करो और उन्हें झिड़को मत, उनको हर समय खुश और प्रसन्न रखो, रुष्ट और अप्रसन्न न करो।

एक बार ईशादूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा कि “ईश्वर की खुशी बाप की खुशी में है और ईश्वर की नाराज़ी बाप की नाराज़ी में है।” यानी अगर तुम बाप का कहना मानोगे, उनकी आज्ञा का पालन करोगे, उनको प्रसन्न करोगे तो ईश्वर भी प्रसन्न होगा और अगर तुम उनको अप्रसन्न व नाराज़ करोगे तो ईश्वर भी नाराज़ और अप्रसन्न होगा। माँ-बाप को खुश रखने के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने बहुत ज़ोर दिया है, माँ-बाप की दिल व जान से सेवा करने की ताकीद भी की है और उनपर प्राण निछावर करने पर उभारा है और बताया है कि इंसान माँ-बाप की सेवा करके लोक और परलोक में कामयाब हो सकता है। माँ-बाप की सेवा के कारण आदमी को लम्बी आयु और अधिक जीविका मिलती है।

ईश्वर के पैग़म्बर ने बताया है कि अपने माँ-बाप की आज्ञा का पालन करो। जब कोई काम करो चाहे वह कितना ही महान और बड़ा हो अपने माँ-बाप से आज्ञा ले लो। माँ-बाप का आज्ञापालन स्वर्ग के दरवाज़ों को खोलता है। यानी जो उनकी आज्ञा का पालन दिल से करेगा उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खुल जाएँगे और वह उनमें प्रवेश करेगा और जो उनका कहना नहीं मानेगा, उनकी आज्ञा का पालन करने से मुख मोड़ेगा, वह नरक में जाएगा।

ईश्वर ने अपनी पवित्र किताब कुरआन में निर्देश दिया है कि माँ-बाप से अच्छी बात करो, मान-सम्मान से पेश आओ। ऐसा न हो कि तुम उनका सम्मान न करो और सख्त बात करो, बल्कि उनके पास नम्रतापूर्वक आओ, उनके सामने बढ़े न बनो।

एक बार ईश्वर के दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के एक मित्र हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने एक दोस्त से कहा कि अगर तुम अपने माँ-बाप के साथ नम्रता से बातचीत करोगे, उनके खाने-पीने का ख्याल रखोगे तो स्वर्ग में अवश्य जाओगे, बशर्ते कि तुम गुनाह कबीरा अर्थात बड़े गुनाहों से बचते रहो। इसी प्रकार एक और साथी हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने एक आदमी से कहा कि तुम न तो अपने बाप का नाम लेना और न उनसे आगे चलना और न उनसे पहले बैठना। इसी प्रकार बहुत-सी जगहों पर माँ-बाप के साथ मान-सम्मान और आदर-सत्कार का आदेश दिया गया है।

ईश्वर के सन्देश्या हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने माँ-बाप से प्रेम करने को बड़ा श्रेष्ठ कर्म बताया है और उसका बड़ा सवाब (पुण्य) बताया है। अगर कोई सदाचारी औलाद अपने माँ-बाप पर प्रेम भरी एक नज़र भी डाले तो ईश्वर उसको स्वीकृत हज़ के बराबर बदला देता है।

ईश्वर ने अपनी किताब में आदेश दिया है कि माल के सबसे ज्यादा हक्कदार माँ-बाप हैं। इंसान के पास जो धन-दौलत है वह उसे अनेक कामों में खर्च करता है। ईश्वर के नज़दीक सबसे अधिक हक्कदार माँ-बाप हैं कि उनकी धन-दौलत से सहायता की जाए, उनके बाद किसी और को कुछ दिया जाए। माँ-बाप पर दिल खोल कर खर्च करने और कंजूसी न करने के बारे में एक किस्सा आता है, जिसे सुनकर या पढ़कर दिल भर आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के पास एक आदमी आया और उसने अपने बाप की शिकायत की कि वे जब चाहते हैं मेरा माल ले लेते हैं। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने उस आदमी के बाप को बुलाया। आप (सल्ल.) के बुलाने पर एक कमज़ोर बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने उस बूढ़े आदमी से पूछा तो उसने कहा, “ऐ अल्लाह के रसूल! एक समय था जब यह कमज़ोर और बेबस था और मुझमें शक्ति थी। मैं मालदार था और यह खाली हाथ और निर्धन था। मैंने कभी अपनी चीज़ लेने से इसे नहीं रोका। आज मैं कमज़ोर हूँ और यह शक्तिशाली और ताकतवर है। मैं खाली हाथ हूँ और यह मालदार। अब यह अपना माल मुझसे बचा-बचाकर रखता है।” बूढ़े की यह बात सुनकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) रो पड़े और बूढ़े के लड़के से कहा, “तू और तेरा माल तेरे बाप का है।”

पैग़म्बर (सल्ल.) के इस कथन से साफ़ स्पष्ट हो गया कि इंसान जो कुछ है या उसके पास जो कुछ है वह सब उसके माँ-बाप के आशीर्वादों, कोशिशों और उनके प्रयास व प्रयत्न के ही कारण है। इसलिए उसे स्वयं भी अपने माँ-बाप के अधीन रहना चाहिए, उनके आज्ञा-पालन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपना माल भी अपने माँ-बाप पर खर्च करना चाहिए एवं उन्हें लेने से भी नहीं रोकना चाहिए।

पवित्र कुरआन में एक जगह है कि माँ-बाप के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि ऐ पालनहार! ऐ हमारे प्रभु! उनपर दया कर। उन्होंने हमारे लिए बड़ी कठिनाइयाँ झेली हैं।

हमारा पालन-पोषण बड़ी मेहनत से किया है। इसलिए तू भी उनपर अपनी बहुत-बहुत कृपा कर।

चूँकि माँ ने बाप से अधिक कठिनाइयाँ उठाई हैं, इसलिए माँ इस बात की अधिक हक्कदार है कि बाप से ज्यादा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। ईश्वरीय ग्रन्थ कुरआन में इसके बारे में भी बताया गया है और दया स्वरूप हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने भी स्पष्ट कर दिया है कि बाप के मुकाबले में माँ सेवा की ज्यादा हक्कदार है। एक आदमी ने हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) से पूछा कि “मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे अधिक हक्कदार कौन है?” तो ईश्वर के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने उत्तर दिया, “तेरी माँ।” उस आदमी ने कहा कि फिर कौन है? पैगम्बर (सल्ल.) ने जवाब दिया, “तेरी माँ।” उस आदमी ने कहा कि फिर कौन है? हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा, “तेरी माँ।” उस आदमी ने चौथी बार पूछा कि फिर कौन है? हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने कहा “तेरा बाप।”

इसी प्रकार एक अवसर पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया कि “‘स्वर्ग माँ के पैरों के नीचे है।’” अर्थात् तुम माँ की सेवा दिल व जान से करोगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगे, उन्हें प्रसन्न रखोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अर्थात् उनकी सेवा करके तुम स्वर्ग पा सकते हो। इसी प्रकार अनेक जगहों पर माँ की सेवा का विशेष रूप से उल्लेख है।

आगर माँ-बाप में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो जाए, उस अवस्था में भी ईश्वर और उसके सन्देश्या ने आदेश दिया है कि उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि ऐ प्रभु! तू उन्हें क्षमा कर, उन्हें आराम में रख और स्वर्ग में दाखिल कर।

ईश्वर ने जहाँ माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने, उनकी सेवा और आज्ञापालन करने, उनको आराम पहुँचाने की ताकीद की है, वहीं उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर माँ-बाप तुम्हें उन बातों का आदेश दें जिनसे ईश्वर ने रोका है तो उस समय माँ-बाप की बात न मानो। होना भी यही चाहिए। माँ-बाप अवैध और ग़लत बात का आदेश देंगे तो उसे कैसे माना जाएगा? हाँ, सही और सत्य बात में उनका पूर्ण आज्ञापालन किया जाएगा।

मेरी प्यारी अम्मी! मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने यह फ़ैसला किया है कि मैं वही काम करूँगा जिनका आदेश ईश्वर या उसके सन्देश्या ने दिया है। इसी लिए माँ-बाप के साथ भी वही व्यवहार करूँगा जो उसने करने को कहा है। और माँ-बाप के बारे में उसने जो आदेश दिए हैं, वे मैंने आपके सामने रख दिए हैं और इन्हीं पर मैं अमल करने की कोशिश करूँगा।

मुझे आशा है कि आप आप ध्यानपूर्वक इन बातों को पढ़ेंगी और इनपर विचार करेंगी और यह समझेंगी कि मेरा बेटा जो कह रहा है वह सत्य है तो आप पुकार उठेंगी कि नहीं, नहीं! मेरा यह स्वाल ग़लत है कि “मेरे बेटे को मौलाना ने बहका दिया है, अब वह मेरा नहीं रहा,” बल्कि मौलाना ने तो उसे मेरा बेटा बना दिया और कभी न जुदा होनेवाला जिगर का टुकड़ा बना दिया है। उसे बहकाया नहीं, बल्कि सत्य- मार्ग पर लगा दिया है। और पंडित जी का कहना सरासर ग़लत और बे-बुनियाद है कि “यह आप का नहीं होगा।”

मेरी अच्छी माँ! आप विश्वास रखिए कि मैं आपका हूँ और आपका ही रहूँगा। आप दिल से बिल्कुल ही उन आशंकाओं को निकाल दीजिए जो आपके दिल में पैदा हो गई हैं।

मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस्लाम ही केवल वह धर्म है जो मानव-जाति को सत्य-मार्ग दिखाता है। यह धर्म ईश्वर की ओर से भेजा हुआ है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र के लिए आदेश दिए गए हैं। इस्लाम धर्म का यह पहलू जो माँ-बाप से सम्बन्ध रखता है, आपके सामने है। इसपर विचार करने से आप अच्छी तरह समझ सकती हैं कि इस्लाम कैसा धर्म है। इसकी शिक्षाएँ कितनी मूल्यवान, ठोस और उचित हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि इसी प्रकार के आदेश जीवन के हर मामले में दिए गए हैं और मनुष्य का पथ-प्रदर्शन किया गया है।

मेरी व्यारी माँ! आपने मेरी देखभाल और पालन- पोषण के लिए कितने कष्ट उठाए हैं, कितनी मुसीबतें और कठिनाइयाँ झेली हैं इसका मुझे पूरा एहसास है। आपने मेरे लिए दुःख उठाए हैं, मुझे महीनों पेट में लिए-लिए फिरीं और वे तमाम कष्ट उठाए जो उस समय पेश आए जब मैंने इस धरती पर पैर रखा। मैं गोश्त का एक लोथड़ा था, बिल्कुल बेबस और मजबूर। लेकिन आपने मांस के इस टुकड़े का दिल व जान से पालन- पोषण किया। मैं कुछ बड़ा हुआ तो मेरी शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध किया और मेरे सुधार की चिन्ता की। मैं अगर बीमार पड़ा तो आप बेचैन हो गई। मेरे लिए रातों की नींद और दिन का आराम निछावर किया। मुझे अच्छे से अच्छा खिलाया और कितने ही अवसर पर स्वयं भूखी रहीं। मुझे अच्छे से अच्छा पहनाया और स्वयं मोटा-झोटा पहनकर रहीं। सचमुच आपके कितने उपकार हैं, जबान बयान करने में असमर्थ है। इन उपकारों का बदला तो क्या धन्यवाद का हक्क भी अदा नहीं किया जा सकता। तभी तो ईश्वर ने कुरआन में माँ के साथ विशेष रूप से आदर-सत्कार का आदेश दिया है।

ऐ मेरी माँ! आपने मुझे दुनिया में आराम पहुँचाया है। मैं दुनिया में तो आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, परन्तु मेरी अभिलाषा और दिली इच्छा है कि आपको आनेवाले जीवन में पूर्ण सुख मिले, जिसका प्रारंभिक कारण मैं बन सकूँ। वह शान्ति-मार्ग जिसपर चलकर परलोक में सदा का आराम और सदैव का सुख है इस्लाम ही है। इसी पर चलकर दुनिया में कामयाबी और परलोक में मुक्ति और प्रभु का सामीप्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी मार्ग को अपनाएँ और इसी के अनुसार जीवन व्यतीत करें। घर पर अनेक बार मैंने आपको समझाया और इस तरफ़ बुलाया है, लेकिन आपने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि आप जानती हैं कि मैं आपसे कोई बदला नहीं चाहता और न मुझे कोई और सांसारिक लोभ है, बल्कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपनी माँ को उस भड़कती हुई आग से बचा लूँ जो मुझे दिखाई दे रही है, और आप जिस मार्ग पर चल रही हैं वह मार्ग आपको उसी आग की तरफ़ ले जा रहा है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं। अर्थात् आप एक द्वेष पर सवार हैं, वह गाड़ी जिस मार्ग से जानेवाली है उसमें एक पुल ऐसा भी है जिसपर पठरियाँ उखड़ी पड़ी हैं। मैं यह अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि यह द्वेष मंज़िल तक पहुँचने के बजाय रास्ते ही में उलट जाएगी और इसके सब यात्री घायल हो जाएँगे या मृत्यु के घाट उतर जाएँगे, और मेरे पास एक खूबसूरत सी कार है जो मुझे आसानी से मंज़िल पर पहुँचा देगी। मैं बार-बार हर स्टेशन पर आपके पास जाता हूँ और पुकार- पुकारकर कहता हूँ, “ऐ मेरी माँ, उतर आइए इस द्वेष से, उतर आइए, यह रास्ते में उलट जानेवाली है। चली आइए मेरी कार में, इसी में भलाई है।” आप हैं कि बराबर इंकार किए जा रही हैं, मैं हूँ कि बराबर बुला रहा हूँ। तो अगर आप वह खतरनाक पुल आने से पहले- पहले मेरी कार में आ जाती हैं और द्वेष छोड़ देती हैं तो आप सकुशल मंज़िल तक पहुँच जाएँगी, वरना पुल आते ही दूसरे लोगों के साथ आप भी हलाक हो जाएँगी। और उस समय कहेंगी कि काश, मैंने अपने बेटे की बात पर ध्यान दिया होता और कार में बैठ गई होती! अतः आप जीवन की जिस गाड़ी पर सवार हैं वह रास्ते में उलट जानेवाली है और मंज़िल तक नहीं पहुँचाएँगी, और अगर आप उस सवारी पर आ गई जिसपर मैं सवार हूँ, यानी इस्लाम की गाड़ी, तो कुशलतापूर्वक पहुँच जाएँगी।

ये मेरे कुछ ज़ज़बात हैं जो दिल में उमड़ रहे हैं, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आपके दिल में ये बातें उतार दे और आपको सही मार्ग पर चलाएँ ताकि मृत्यु के पश्चात् आनेवाली हमेशा की ज़िन्दगी में उसकी दया और कृपा की पात्र बन सकें। और इस तरह हम सब स्वर्ग में एक साथ रहने के हक्कदार बन जाएँ जैसा कि कुरआन में

परमेश्वर ने यह स्खुशाखबरी दी है कि ईश्वर को माननेवाले और उसके आदेशों के अनुसार ज़िन्दगी गुज़ारनेवाले लोग अपने “सदाचारी माँ-बाप और बीवी-बच्चों के साथ सदैव स्वर्ग में एक साथ रहेंगे।” (१३:२३)

मुझे आशा है कि आप मेरी बातों पर गंभीरता के साथ ज़रूर विचार करेंगी। मैं यक़ीन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकता।

आपका आज्ञाकारी बेटा

नसीम ग़ाज़ी

२३. तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की बन्दगी न करो और माँ-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों ही तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उन्हें ‘उँह’ तक न कहो और न उन्हें डिड़को, बल्कि उनसे शिष्टापूर्वक बात करो।

२४. और उनके आगे दयालुता से नग्रता की भुजाएँ बिछाए रखो और कहो: “मेरे रब ! जिस प्रकार उन्होंने बालकाल में मुझे पाला है, तू भी उनपर दया कर।”

२५. जो कुछ तुम्हारे जी में है उसे तुम्हारा रब भली-भाँति जानता है। यदि तुम सुयोग्य और अच्छे हुए तो निश्चय ही वह भी ऐसे रुजू करनेवालों के लिए बड़ा क्षमाशील है।

२६. और नातेदार को उसका हक़ दो और मुहताज और मुसाफ़िर को भी—और फ़ुजूलखर्ची न करो भ

२७. निश्चय ही फ़ुजूलखर्ची करनेवाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही कृतघ्न है।—

(बनी इसराईल १७: २७)